



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा रहे 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 13.10.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में अवैध जुआ/शराब हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह थाना कोतवाली महोबा द्वारा उ0नि0 शेरेआलम खान के नेतृत्व में गठित टीम ने सार्वजनिक स्थान पर ताश-पत्तों के माध्यम से हार-जीत की बाजी लगा रहे 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. कमलेश रैकवार पुत्र पन्नालाल उम्र 19 वर्ष 2. सोनू रैकवार पुत्र कंधी रैकवार उम्र 25 वर्ष 3. देवेन्द्र पुत्र पन्नालाल रैकवार उम्र 21 वर्ष 4. छोटू रैकवार पुत्र गौरीशंकर उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मालफड़ 2270 रुपये व जामातलाशी 200 रुपये मय 52 अदद ताश पत्ता बरामद किया गया बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 435/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 शेरेआलम खान चौकी प्रभारी मनियादेव थाना कोतवाली महोबा
2. कां0 प्रवीण कुमार वर्मा
3. कां0 श्याम यादव 4. कां0 दीपेन्द्र सिंह यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कमलेश रैकवार पुत्र पन्नालाल उम्र 19 वर्ष
2. सोनू रैकवार पुत्र कंधी रैकवार उम्र 25 वर्ष
3. देवेन्द्र पुत्र पन्नालाल रैकवार उम्र 21 वर्ष
4. छोटू रैकवार पुत्र गौरीशंकर उम्र 20 वर्ष

निवासीगण मुहल्ला बन्धानवार्ड थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.10.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में व.उ.नि. रामप्रताप यादव के नेतृत्व में टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं.174/2021 धारा 363/366/376ख भादवि, 4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5,3(2)5(क) **SC/ST ACT** थाना अजनर जनपद महोबा से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दयाराम पुत्र परसू कुशवाहा उम्र 19 वर्ष नि. कस्वा व थाना अजनर जिला महोबा को बस स्टैण्ड अजनर से हिरासत पुलिस में लिया गया वाद आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

दयाराम पुत्र परसू कुशवाहा उम्र 19 वर्ष नि. कस्वा व थाना अजनर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 रामप्रताप यादव थाना अजनर जनपद महोबा
2. रि.का. सैय्यद मो. फुरकान थाना अजनर जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत आयोजित की गयी पीस कमेटी की बैठक -

आज दिनांक 14.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर थाना चरखारी में **SDM** चरखारी श्री रमेश कुमार तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र की संयुक्त अध्यक्षता में आगामी त्यौहार दुर्गा पूजा / वारावफात के संबंध में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई जिसमें **SDM/CO** चरखारी द्वारा दुर्गा पूजा (नवरात्रि), दशहरा पर्व, मूर्ति विसर्जन, बारावफात सहित निकट भविष्य में होने वाले अन्य त्यौहारों तथा किसानों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा त्यौहारों को आपसी सौहार्द के साथ मनाये जाने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।

जिसमें सभी से आपस में मिलकर त्यौहार शांति व सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई, कोविड-19 के दृष्टिगत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप त्यौहारों को मनाने का अनुरोध किया गया तथा अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस टीम द्वारा कठोर रूप से कार्यवाही किये जाने की चेतावनी भी दी गयी।

इसी क्रम में थाना श्रीनगर में क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा प्र0नि0 श्रीनगर श्री अनिल कुमार की उपस्थिति में, थाना कबरई में थानाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह द्वारा, थाना अजनर में थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह के द्वारा, चौकी बेलाताल में प्र0नि0 कुलपहाड श्री महेन्द्र प्रताप सिंह व चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम विश्वकर्मा द्वारा थानाक्षेत्र के विभिन्न समुदायों के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सभी से आगामी त्यौहारों को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गयी।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जनपदीय पुलिस द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-अपने थाना क्षेत्र में पैदल गस्त कर की गई संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग

कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **90** ई-चालान किये गये एवं कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **03** व्यक्तियों से **500** रु0 वसूला गया।



आज दिनांक 14.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा, दुर्गा पंडालों आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police